



IST LIMITED

Dated: 17/08/2021

BSE Limited,
Department of Corporate Services,
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

BSE Code: 508807

Sub: Newspaper Publication of Financial Results

Dear Sir(s),

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith a copy of the newspaper publication of the abstract of the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2021. The abstract of the financial results were published on 15th August, 2021 in The Pioneer – English and Hari Bhoomi – Hindi Newspaper(s).

This is for your reference and record.

Thanking you.

Yours faithfully,

For IST Limited


Bhupinder Kumar
Company Secretary
A-15871



CIN - L33301HR1976PLC008316
Head off. : A-23, New Office Complex, Defence Colony, New Delhi-110024 (India)
Phones : 24694291-92, 24617319 Fax : 011-24625694
Regd. Off. & Factory : Dharuhera Industrial Complex, Delhi-Jaipur Highway No. 8,
Village Kapriwas, Dharuhera, Distt. Rewari-123106 (Haryana)
Phones : 01274-267346-48, Fax : 01274-267444
E-mail : istgroup.ho@gmail.com Website : www.istindia.com

Afghan Prez addresses nation amid Taliban blitz

AP ■ KABUL
Afghan President Ashraf Ghani says he will not give up the "achievements" of the last 20 years and that "consultations" are underway.



He delivered a brief and vague televised address on Saturday, his first public appearance in days following a major Taliban advance. The insurgents have seized most of northern, western and southern Afghanistan and are battling Government forces some 11 kilometers (7 miles) south of Kabul.

The United States is set to withdraw its last forces by Aug. 31, raising questions about the survival of Ghani's Western-backed government.

The U.S. invaded Afghanistan after the 9/11 attacks nearly 20 years ago.

The Taliban seized a province just south of Afghanistan's capital and launched a multi-pronged assault early Saturday on a major city in the north defended by powerful former warlords, Afghan officials said.

The insurgents have captured much of northern, western and

Rush of troops to Kabul tests Biden's withdrawal deadline

AP ■ WASHINGTON

The last-minute decision to send 3,000 U.S. troops to Afghanistan to help partially evacuate the U.S. Embassy is calling into question whether President Joe Biden will meet his August 31 deadline for fully withdrawing combat forces.

The vanguard of a Marine contingent arrived in Kabul, the capital, on Friday, and most of the rest of the 3,000 are due by Sunday.

Officials have stressed that the newly arriving troops' mission is limited to assisting the airlift of embassy personnel and Afghan allies, and they expect to complete it by month's end. But they might have to stay longer if the embassy is threatened by a Taliban takeover of Kabul by then.

On Saturday, the Taliban seized two more provinces and approached the outskirts of Kabul while also launching a multi-pronged assault on a major northern city defended by former warlords, Afghan officials said.

"Clearly from their actions, it appears as if they are trying to get Kabul isolated," Pentagon spokesman John Kirby said, referring to the Taliban's speedy and efficient takedown of major provincial capitals this past week.

Biden had given the Pentagon until August 31 to complete the withdrawal of the 2,500 to 3,000 troops that were in Afghanistan when he announced in April that he was ending U.S. involvement in the war.

Pakistan reopens Chaman-Spin Boldak border crossing after talks with Taliban

Karachi: Pakistan on Saturday reopened the Chaman-Spin Boldak border crossing with Afghanistan, after two rounds of successful negotiations with the Taliban on repatriating stranded individuals, amidst rapid territorial gains by the militant group in the war-ravaged neighbouring country.

In a blitz assault on Thursday and Friday, the Taliban gained control of Afghanistan's main cities Herat and Kandahar, encircling national capital Kabul.

The insurgents are believed to control two-thirds of the country's territory and over half of the 34 provincial capitals.

Speaking to the media, a Pakistani government official in Chaman said the Taliban and Pakistani authorities decided to open the economically-critical border sector after suc-

cessful negotiations on Friday. He said two rounds of negotiations were held between the two sides.

The Taliban officials are now running affairs of the Afghan border district of Spin-Boldak, which the group captured last month. All taxes and toll fees in the province are being collected by the Taliban.

Turkey: Flood deaths rise to at least 44 as rescuers push on

Istanbul: The death toll from severe floods and mudslides in coastal Turkey has climbed to at least 44, the country's emergency and disaster agency said Saturday.

Torrential rains that pounded the Black Sea provinces of Bartin, Kastamonu and Sinop on Wednesday caused flooding that demolished homes, severed at least five bridges, swept away cars and rendered numerous roads impassable.

Turkish disaster agency AFAD said 36 people were killed in Kastamonu, seven in Sinop and one in Bartin.

Nine people remained hospitalized in Sinop, according to the agency. But some residents in Kastamonu said on social media that there are hundreds more missing, a statement also made by an opposition lawmaker.

Rescue teams and sniffer dogs continued the painstaking task of trying to locate residents. AFAD said 5,188 personnel, 27 rescue dogs, 19 helicopters and two search planes were at the disaster spots.

About 2,250 people were evacuated across the region before, during and after the floods, some lifted from rooftops by helicopters. AP

US: New Mexico school year off to deadly start amid gun violence

Albuquerque (US): It's only a few days into the new school year, but New Mexico's largest district is reeling from a shooting that left one student dead and landed another in custody.

The gunfire at Washington Middle School during the lunch hour Friday marked the second shooting in Albuquerque in less than 24 hours. With the city on pace to shatter its homicide record this year, top state officials said they were heartbroken by what they described as a scourge.

"These tragedies should never occur. That they do tells us there is more work to be done," Governor Michelle Lujan Grisham said.

Albuquerque Police Deputy Commander Kyle Hartssock described the shooting as an isolated incident between two students who were believed to be about 13 years old. He said a school resource officer ran toward the two boys after gunfire erupted and prevented any other violence while tending to the boy who was shot.

Investigators were trying to determine how the student obtained the gun and what may have prompted the shooting, Hartssock said. Other students were being interviewed as detectives tried to piece together what happened, he said. AP

Lanka to import medical O2 from India amid rise in Covid-19 cases

Colombo: Sri Lanka will import 100 metric tonnes of medical grade oxygen from India next week to meet the shortage of supply in hospitals, the Health Minister said on Saturday as WHO experts warned that the number of Covid-19 cases and deaths in the country would spike by mid-October.

Health Minister Pavithra Wanniarachchi told reporters that the government will order medical grade oxygen from India to meet the current needs with the rapid increase of Covid-19 cases. She said 100 metric tonnes of oxygen would be imported from India next week and more orders would be placed depending on the need.

A group of Sri Lankan health experts, who make the WHO independent expert group, has said that patients dependent on oxygen significantly increased from 528 last week to 646 by August 12.

"If this trend continues, there could be a serious shortage of oxygen supply and interruption of care," she said. The health experts have warned that the number of Covid-19 cases would increase up to 6,000 per day up to mid September and deaths would peak to 220 per day by mid October. PTI

Australia State reports record daily cases

Sydney: Australia's most populous state reported a daily record 466 new locally acquired Covid-19 infections on Saturday and increased fines for breaches of pandemic restrictions.

The previous record tally in New South Wales, home to Sydney, was 390 reported on Friday.

Four people had died overnight, bringing the death toll in New South Wales from an outbreak of the delta variant first detected in Sydney in mid-June to 42.

New South Wales Premier Gladys Berejiklian said fines for breaking pandemic rules such as breaching quarantine orders had been increased from 1,000 Australian dollars to AU\$5,000.

Sydney residents will be restricted to within 5 kilometers (3 miles) of home, half the distance they were previously allowed.

The government later announced that all of New South Wales would be locked down from 5 p.m. until Aug. 22.

Deputy Premier John Barilaro tweeted that the stay-at-home orders were to minimize movement and protect regional communities from the evolving Covid-19 situation in Sydney. PTI

UK cuts Covid tests' cost for global travellers, including from India

PTI ■ LONDON

The UK on Saturday reduced the cost of Covid-19 tests for international travellers from Amber list countries like India from 88 pounds to 68 pounds (USD 122 to USD 94), after many representations over the high charges of the mandatory testing.

Passengers returning from Green list countries or Amber list destinations like India, if they are fully vaccinated, will now pay 20 pounds (USD 27) less per Polymerase Chain Reaction (PCR) test.

The test must be taken on or before day two after the traveller arrives in England.

People who have not had both doses of the coronavirus vaccine and are returning from Amber list countries like India will also see the price of the two tests they need fall from 170 pounds to 136 pounds (USD 235 to USD 188). The tests must be taken on days two and eight of their arrival from abroad.

'Won't accept India's denial of role in terror attack in Khyber Pakhtunkhwa'

PTI ■ ISLAMABAD

A day after India dismissed as 'lies' Pakistan's allegations of Indian intelligence support to a deadly bombing in the restive Pakistani province of Khyber Pakhtunkhwa that killed 13 people, including nine Chinese nationals, Islamabad on Saturday said it will not accept New Delhi's denial of its role in the attack.

At least 13 people, including nine Chinese engineers, were killed in the suicide attack in Dasu area of Upper Kohistan district last month following which Pakistan had ordered an investigation into it.

Addressing a press conference here on the completion of the probe, Pakistan Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi accused India's Research and Analysis Wing (RAW) and Afghanistan's National Directorate of Security (NDS) of carrying out the attack.

Firefighting plane from Russia crashes in southern Turkey

AP ■ ISTANBUL

A firefighting plane that was chartered from Russia crashed Saturday in a mountainous area in southern Turkey, Turkish State media reported.

Anadolu news agency said the plane was linked to the General Directory of Forestry. Search and rescue teams were sent to the area in Kahramanmaraş.

Private news agency DHA said the plane crashed as it was fighting a forest fire in the inland Bertiz region. It said the cause of the crash had not yet been identified.

Kahramanmaraş governor Omer Faruk Coskun told Anadolu that a wildfire had begun after lightning struck trees.

"We had dispatched a plane to the area but we lost communication with the plane a while ago and it crashed. The situation is very new. We dispatched many units to the area where the plane crashed," he said.

Asians are fastest-growing racial group in US: Report

PTI ■ WASHINGTON

Asian Americans grew faster than any other minority group in the US in the last decade, rising to 24 million in 2020, according to the first detailed data released from last year's census.

The growth in the American population over the last decade was driven entirely by minority communities, according to the new data released on Thursday by the US Census Bureau.

The number of white Americans declined for the first time since the nation's founding in 1776.

Non-Hispanic whites make up just under 58 per cent of the American population, the first time since the census was first conducted that they have fallen under the 60 per cent mark.

By contrast, the 2000 census showed non-Hispanic whites made up just over 69 per cent of the population, and 63.7 per cent in 2010.

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरद्वार
फ़ोन कोड- 249404
संख्या: 63/07/E-02/DR/AG/RO/ARO/2017-18 दिनांक : 14 अगस्त, 2021
विज्ञापित
महाधिवक्ता कार्यालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा-2021 के 17 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं:-
01. ऑनलाइन विज्ञापन जारी करने की तिथि 15 अगस्त, 2021
02. ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा किये जाने की अन्तिम तिथि 06 सितम्बर, 2021
03. कुल पद 17 पद।
समीक्षा अधिकारी (12 पद), सहायक समीक्षा अधिकारी (05 पद) (पदवार आरक्षण शासनदेवायुसार)
भर्ती से सम्बन्धित नियम, अर्हता और शर्त आदि विज्ञापन में उल्लिखित है जोकि आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध है। अन्यायी आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन का भली-भाँति अवलोकन करना सुनिश्चित करें। (कर्मन्द्र सिंह) सचिव।

PIONEER AGRO EXTRACTS LIMITED
Registered Office : Chhoti Nehar, Malakpur, Pathankot-145 025 (Punjab)
www.pioneeragro.co.in CIN : L15319PB1993PLC012975
Telephone No. : 0186-2345352/53/55
E-Mail : compliance@pioneeragro.co.in
Extract of unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2021
(Rs. in lakhs)
S. No. Particulars Year Ended 30.06.2021 Quarter Ended 30.06.2021 30.06.2020 31.03.2021
1 Total Income from operations 68.89 7.55 8.94 12.82
2 Net Profit/(Loss) for the period (before exceptional items and tax) 38.01 (1.99) (0.67) 4.30
3 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional items) 38.17 (1.99) (0.67) 4.38
4 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional items) 38.17 (1.99) (0.67) 4.48
5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 38.17 (1.99) (0.67) 4.46
6 Equity Share Capital 435.85 435.85 435.85 435.85
7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year 50.00 50.00 60.00 50.00
8 Earnings per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) 0.88 0.00 0.00 0.10
- Basic 0.88 0.00 0.00 0.10
- Diluted 0.88 0.00 0.00 0.10
Notes:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com and on the Company's website www.pioneeragro.co.in
On behalf of the Board of Directors,
(Jagat Mohan Aggarwal)
Managing Director
DIN : 00750120
Place : Pathankot
Date : August 14, 2021

ZEL JEWELLERS LIMITED
REGD. OFFICE : E-5, South Extension, Part-II, New Delhi-110 049
CIN: L74899DL1994PLC058832 Email ID: zeljewellers@yahoo.co.in
PHONES: 011-26252416, 011-22625288, FAX: 011-41640689
Extract of Unaudited Standalone Financial Results for the First Quarter Ended June 30, 2021
(Amount Rs. in Lakhs)
PARTICULARS QUARTER ENDED 30TH JUNE 2021 QUARTER ENDED 31ST MARCH 2021 YEAR ENDED 31ST MARCH 2021
Total Income from operations 406.42 1211.47 3263.93
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items) (1.45) 106.24 254.85
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) (1.45) 106.24 254.85
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) (1.45) 72.69 183.03
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)) (1.45) 72.69 183.03
Equity Share Capital 355.00 355.00 355.00
Reserves as per Balance Sheet 1980.60 1982.05 1982.05
Earnings Per Share (for continuing and discontinued operation):
1. Basic (0.04) (2.05) 5.16
2. Diluted (0.04) (2.05) 5.16
NOTE:
1. The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Standalone Financial Results for the First Quarter and Three Months ended June, 30, 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the first quarter and three months ended June, 30, 2021 is available on the Stock Exchange website (www.mse.in) and Company's website (www.rkjewelers.in). 2. Previous year/period figures have been re-arranged and regrouped wherever necessary to make them comparable with current period figures. 3. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 14th August, 2021. 4. These Financial Results have been prepared in accordance with Ind AS notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment thereafter.
Zel Jewellers Limited
Sd/-
Rakesh Sharma
Chairman
00122870
Place: Delhi
Date: 14th August, 2021

NORTH CENTRAL RAILWAY, PRAYAGRAJ
E-Tender Notice No. 06-2021 (Medical) Date: 13.08.2021
E-Tendering Tender Notice
Add Chief Medical Supdt. North Central Railway, Agra acting for and on behalf of the President of India invites "E-Tender" through on line only (E-Tending) for the following work:-
1. Name of work with its location: All kind of conservancy work, removal of dead animals, rubbish etc from the dustbins by mechanical transport/standard size Hydraulic tractor, trolley of Achhnera Jn. Railway colony & station premises to outside railway premises.
2. Approx. Cost of the work: ₹ 4,43,295.51 (Rupees Four lakh Forty Three thousand Two Hundred Ninty Five point Fifty one paise only)
Note:- For full details and submission of bid please see the Indian Railway Website www.ireps.gov.in. Bidders will be able to submit their original/revised bids through web portal "www.ireps.gov.in" upto 12:30 hrs on 03.09.2021. Manual offers are not allowed against this tender, and any such manual offer received shall be ignored. 91221 (R)
North central railways @ CPRO NCR

SIDH AUTOMOBILES LIMITED
Registered Office:-13, SIF GREATER KAILASH-1 NEW DELHI-110048
CIN : L34102DL1985PLC020156
Email: sidhindia1985@gmail.com, website: sidhautomobile.com
Un-Audited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2021
PART I
Statement of Un-Audited Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2021
Sr. No. Particulars Current quarter ended 30-06-2021 Previous year quarter ended 30-06-2020 Current Year Ended 31-03-2021
1 Total Income from operations 0.00 0.00 0.00
2 Net Profit/Loss for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items) (7.17) (1.76) (7.64)
3 Net Profit/Loss for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) (7.17) (1.76) (7.64)
4 Net Profit/Loss for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) (7.17) (1.76) (7.64)
5 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)) (7.17) (1.76) (7.64)
6 Equity Share Capital 296.23 296.23 296.23
7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) (as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year) 0 0 0
8 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)
-Basic (0.24) (0.06) (0.26)
-Diluted (0.24) (0.06) (0.26)
Notes:
1. The above result was taken on record by the Board of Directors in the meeting held on 14th day of August, 2021.
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
3. The full format of the Quarterly Audited Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and Company's website (www.sidhautomobile.com).
For and on behalf of the Board of Directors
SIDH AUTOMOBILES LIMITED
Sd/-
HARI MOHAN GUPTA
Director
DIN: 031585571
Place: Delhi
Date: 14.08.2021

OK PLAY INDIA LIMITED
CIN : L28219HR1988PLC030347
Regd. Office: Plot No. 17, Roz-Ka-Meo Industrial Estate, Tehsil Nuh, District - Mewat, Haryana -122103, India
E-mail : investor.relations@okplay.in, Website: www.okplay.in
EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2021 (Rs. in lacs)
SI No Particulars Standalone Quarter Ended 30.06.2021 Year ended 31.03.2021 Consolidated Quarter Ended 30.06.2021 Year ended 31.03.2021
1 Total Revenue from operations 1,038.84 499.66 7,051.89 1,384.17 6,174.00 9,235.98
2 Net Profit/(Loss) before Exceptional items and tax (765.08) (420.09) (851.27) (784.66) (469.03) (881.39)
3 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items) (768.54) (422.67) (873.63) (788.17) (471.61) (903.74)
4 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional items) (768.54) (422.67) (870.69) (788.17) (471.61) (898.72)
5 Total Comprehensive Income / (Loss) for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)] (768.54) (422.67) (891.97) (788.17) (471.61) (790.00)
6 Equity Share Capital 1,920.81 1,920.81 1,920.81 1,920.81 1,920.81 1,920.81
7 Other Equity / (Reserves excluding revaluation reserve) - - 3,300.95 - - 2,825.81
8 Earning per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)
(a) Basic (in Rs.) (4.00) (2.20) (3.60) (4.10) (2.46) (4.11)
(b) Diluted (in Rs.) (4.00) (2.20) (3.60) (4.10) (2.46) (4.11)
NOTES:
1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of quarterly financial results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.okplay.in).
2 The above standalone and consolidated financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 14th August, 2021.
for OK Play India Limited
Sd/-
RAJAN HANDA
MANAGING DIRECTOR
DIN - 00194590
Place : New Delhi
Date : 14th August, 2021

IST LIMITED
Regd. Office: Dharuhera Industrial Complex, Delhi- Jaipur Highway No.8, Kapriwas, Dharuhera, Rewari (Haryana)-123106
Head Office: A-23, New Office Complex, 2nd Floor, Defence Colony, New Delhi - 110024
CIN: L33301HR1976PLC008316, Phone No.: 011-24694291-92; Fax: 011-24625694; Email: istgroup.ho@gmail.com; Website: www.istindia.com
EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2021 (Fig. in Lacs unless otherwise stated)
SI No Particulars Standalone Quarter Ended 30.06.2021 Year ended 31.03.2021 Consolidated Quarter Ended 30.06.2021 Year ended 31.03.2021
1 Revenue from Operations 496.98 171.17 2976.63 2910.14 2658.87 13651.95
2 Other Income 439.11 354.60 941.15 1379.25 1160.41 4059.90
3 Net Profit for the period (before Tax, exceptional items) 379.18 216.29 969.39 3544.61 3034.03 13221.92
4 Net Profit for the period before Tax (after exceptional items) 379.18 216.29 969.39 3544.61 3034.03 13221.92
5 Net Profit for the period after tax (after exceptional items) 320.49 192.10 813.63 2790.09 2253.92 9518.26
6 Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)) 322.44 192.76 821.43 3584.11 3039.28 12037.56
7 Equity Share Capital (Face value of Rs. 5/- each) 584.68 584.68 584.68 584.68 584.68 584.68
8 Other Equity - - 19184.45 - - 91774.58
9 Earning Per Share (Face value of Rs. 5/- each)
Basic (Rs.) 2.75 1.65 6.98 24.01 19.42 82.07
Diluted (Rs.) 2.75 1.65 6.98 24.01 19.42 82.07
NOTES:
1 The above standalone and consolidated financial results have been reviewed by the Audit Committee at its meeting held on 14 August, 2021 and thereafter, approved by the Board of Directors at their meeting held on 14 August, 2021. These results are as per Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended.
2 The Limited Review Report have been carried out by the statutory auditors of the Company.
3 Figures for the quarter ended 31 March, 2021 represents the balancing figures between the audited figures for the full financial year ended 31 March, 2021 and the published year to date reviewed figures upto the third quarter of the respective year.
4 Figures of the previous period / year have been re-grouped / re-arranged and / or re-casted, wherever required.
By order of the Board
Sd/-
(S.C. Jain)
Executive Director
DIN : 00092079
Place : New Delhi
Date : 14th August, 2021

